



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122023-250375
CG-DL-E-02122023-250375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4875]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 2023/अग्रहायण 9, 1945

No. 4875]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 2023/AGRAHAYANA 9, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2023

का.आ. 5092(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5641. तारीख 02/12/2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH-752G के कि.मी. 64/000 से कि.मी. 101/140 सटाणा से मंगरुळ (भाग-III) तक के भूखण्ड के निर्माण, (दो लेन/चार लेन/चौड़ा करण/टोल प्लाजा आदी) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16/12/2022" को "दैनिक देशदुत टाइम्स (इंग्रजी)" और "आपलं महानगर (मराठी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH752G के कि.मी. 64/000 से कि.मी.101/140 के सटाणा से मंगरूळ (भाग-III) लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नासिक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: देवला					
गांव का नाम: सटवाईचीवाडी					
1	१६५	निजी	शुष्क	0.005	रविकांत दादाजी आहेर, रोहिणी रविकांत आहेर
गांव का नाम: भावडे					
2	७१	निजी	शुष्क	0.02	दिपक रामदास भदाणे, सुनीता पोपट भदाणे, वैशाली रमेश भदाणे, नुतन रमेश भदाणे, दर्शन रमेश भदाणे, युगश्री हर्षल पवार, इतर हक्कात - कापशी विविध कार्य सेवा सह संस्था
3	९९	निजी	शुष्क	0.24	जगन्नाथ रामदास खैर, पंडित वेडु खैर, जिभाऊ रामदास खैर, हरिचंद्र रामदास खैर, इतर हक्कात - मकरंदवाडी वि.कार्य.सेवा.सो., अक्सिस बैंक लि. शाखा पिंपळगांव (ब), ता. निफाड, नाशिक
तालुक का नाम: बागलाण					
गांव का नाम: मोरे नगर					
4	३९	निजी	शुष्क	0.05	प्रतिभा सुधाकर पंडित, निलेश सुधाकर पंडित, धीरज सुधाकर पंडित, हर्षला रघुनाथ शुक्ल,

					अक्षया अनिरुद्ध शेंडे.
5	४२	निजी	शुष्क	0.029	सुब्राव त्र्यंबक सोनवणे, अशोक त्र्यंबक सोनवणे, इतर हक्कात - सटाणा दक्षिण भाग वि.का.. सेवा संस्था.
6	४३	निजी	शुष्क	0.027	सुब्राव त्र्यंबक सोनवणे, इतर हक्कात - सटाणा दक्षिण भाग वि.का.. सेवा संस्था.
गांव का नाम: इंदिरानगर					
7	१५	निजी	अकृषिक	0.091	राजेंद्र कारभारी भोसले, यादव राधू झाडे, प्रकाश जिभाऊ देवरे, हेमा गणेश मोरे, गणेश सूर्यकांत मोरे, किरण केदा काकुळते, सीताराम आनंदा ठोके, संजय वसंत पाठक. राजीव वसंत पाठक, प्रवीण वसंत पाठक, पुष्पावती वसंत पाठक, हरी गरबड बागुल, दामोदर जिभाऊ सोनवणे, सरला रामदास सोनवणे, प्रतीक रामदास सोनवणे अपाक आई सरला, नईम सलीम शेख, वसीम सलीम शेख, शरीफ इस्माईल शेख, अब्दुल रहमान इस्माईल शेख, गुलाम सरवर इस्माईल शेख, दादाजी सुकदेव आहिरे, बाबाजी जयराम आहिरे, सय्यद याकुब बागवान, महाराष्ट्र शासन, विश्वनाथ काशिनाथ चंद्रात्रे, यशवंत जगन्नाथ अहिरे, अर्जुन जगन्नाथ अहिरे, अनिल छगन बागुल, रवींद्र तोताराम सोनवणे, पुष्पेंद्र सुरेंद्रनाथ सटानावाला, गिरीश विष्णू भदाणे,

					<p> वहिदाली इस्ताक शेख, शाहिद कलीम शेख, मोहम्मद शफी अब्दुल, इंदूबाई यशवंत सोनवणे, प्रदिप काशिनाथ बधान, राजेंद्र काशिनाथ बधान, दिलीप काशिनाथ बधान, जितेंद्र हिरालाल सावकर, दिपक हिरालाल सावकर, ताराबाई हिरालाल सावकर, सुपा बंडू शेख, अहमद बंडू शेख, मुन्ना बंडू शेख, शरीफ भिकन शेख, फिरोज भिकन शेख, सलमान भिकन शेख, मलेका भिकन शेख, सुशीलाबाई शिवाजी बोरासे, शामराव अभिमान पवार, रुपाली अविनाश ठाकरे, प्रतिभा सुधाकर पंडित दिनेश काळू सोनवणे, लक्ष्मीबाई नरसिंगराव टाटीवाल, अशोक शंकर सोनवणे, सुनील लक्ष्मण निकम, स्वप्नील यशवंत अहिरे, बाळू चिमण सोनवणे, कारभारी शंकर सोनवणे, बेबीनंद अर्जुनराव आहिरे, निंबाबाई भर्. नामदेव, शुभम निवृत्ती जाधव, रोशन निवृत्ती जाधव, अपाक आजी राजूबाई तानाजी सुर्यवंशी, राजेंद्र काशिनाथ बधान, किरण केदा काकुळते, संजय गंगाधर येवला, भरत गंगाधर येवला, विद्या बाळकृष्ण अमृतकट, सविता शशिकांत महाजन, विजया राजेंद्र ब्राम्हणकर, शकुंतला </p>
--	--	--	--	--	---

					गंगाधर येवले, विजय कारभारी भोसले, धीरज सदानंद जाधव, राकेश सदानंद जाधव, गुलाम इब्राहिम शेख, अफरोज रफिक बागवान, अल्ताफ याकुब तांबोळी, मुनताज हुसेन पठाण, जावेद शेख सांडू शेख, यशवंत मधुकर बागड, उमेश दादाजी सोनवणे, विजया शशिकांत शेवाळे, शितल राजेंद्र पवार, सिमा जयंत धुमणे इतर हक्कात - हरी ओम नागरी सह. पतसंस्था, बागलाण नागरी सह. पतसंस्था मर्या., व्यवस्थापकीय संचालक पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ पुणे, सटाणा मर्चेंट को-ऑप बँक, देवळा शरद पवार नागरी पतसंस्था, स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा सटाणा, बागलाण नागरी सह. पतसंस्था सटाणा, बँक ऑफ बडोदा शाखा सटाणा, इक्विटस स्मॉल फायनान्स बँक लि. शाखा मालेगाव
8	७	निजी	शुष्क	0.018	बायजाबाई पांडुरंग पाकळे, विनायक पांडुरंग पाकळे, रऊफ खलील मुल्ला, विलास कृष्ण निकम, दिग्विजय भगवंत भदाणे, संगिता भगवंत भदाणे, शितल पुंजाराम भदाणे, विनायक पांडुरंग पाकळे, परशराम पांडुरंग पाकळे, बेबीबाई दिलीप पगारे, सुनील विजयकुमार

					छाजेड, उमेश दादाजी सोनवणे, नाशिक जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज नाशिक तर्फे चिटणीस राजाराम दौलत पा. इतर हक्कात - कल्पना अभिमान बागुल, किशोर मुरलीधर देवरे, योगेश मुरलीधर देवरे, दत्तात्रय रामचंद्र कोठावदे, विमलबाई मगन शेवाळे, पंढरीनाथ वामन येवला, कमलाकर कांतीलाल चव्हाण, संजय कांतीलाल चव्हाण, श्रीपाद कांतीलाल चव्हाण
तालुक का नाम: चांदवड					
गांव का नाम: खेलदरी					
9	५६	निजी	शुष्क	0.09	पंडीत पुंजा जाधव, इतर हक्कात - खेलदरी वि.का.सेवा.सो. लि.
10	५८/१	निजी	शुष्क	0.201	अतुल प्रकाश फेगडे, अनघा हिमांशू पाटील, इतर अधिकार - श्री गणेश सहकारी बँक लि. नाशिक शाखा पिंपळगाव बसवंत,
11	५८/२	निजी	शुष्क	0.061	सुरेश आबाजी जाधव, मंगेश रघुनाथ दराडे इतर हक्कात - खेलदरी वि.का.सह.सो. लि. प्रमोद सुरेश महाजन, वसुली व विक्री अधिकारी सह. पत. संस्था. मर्या. लि, श्री गणेश सहकारी बँक लि. नाशिक शाखा पिंपळगाव बसवंत,
12	७२	निजी	शुष्क	0.01	भाऊराव दादा ढोमसे, साहेबराव बाजीराव ढोमसे, सूर्यभान बाजीराव ढोमसे,

					भागीरथी बाजीराव ढोमसे, इतर उजवे - अपाक साहेबराव अलका माणिक जगताप मथुरा बाजीराव ढोमसे अ.पा.क.साहेबराव, संगिता बाजीराव ढोमसे, खेलदरी वि.का.सह.सो. लि.
कुल योग				0.842	

[फा. सं. 12014/79/2020-21-MAH(Z-4)/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2023

S.O. 5092(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 5641(E) Dated 02/12/2022**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Two lane/Four lane/Widening/Toll Plaza etc.) Maintenance, management and operation of National Highway No.752G on the stretch of land from **Km. 64/000 to Km. 101/140 Satana to Mangrul (Section – III)** in the district of NASHIK in the State of MAHARASHTRA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Deshdoot Times (English)**” and “**Aapal Mahanagar (Marathi)**” both dated **16/12/2022**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority Deputy Collector (Land Acquisition) National Highway Project, Nashik and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-752G in the stretch of land from Km. 64/000 to Km. 101/140 of Satana to Magrul (Section – III) in the district of NASHIK in the State of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: NASHIK		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Deola					
Village: Satwaichiwadi					
1	165	Private	Dry	0.005	Ravikant Dadaji

					Aaher, Rohini Ravikant Aaher
Village: Bhavadae					
2	71	Private	Dry	0.02	Dipak Ramdas Bhadane, Sunita Popat Bhadane, Vaishali Ramesh Bhadane, Nutan Ramesh Bhadane, Darshan Ramesh Bhadane, Yugashri Harshal Pawar, Other Right - Kapashi Vividh Kary. Seva Sah Santha.
3	99	Private	Dry	0.24	Jagnnath Ramdas Khair, Pandit Vedu Khair, Jibhau Ramdas Khair, Harichandra Ramdas Khair, Other Right - Makarandvadi V.K.Seva So., Axix Bank Ltd. Branch Pimpalgaon (B), Tal. Niphad, Nashik
Taluk: Baglan					
Village: More Nagar					
4	39	Private	Dry	0.05	Pratibha Sudhakar Pandit, Nilesh Sudhakar Pandit, Dhiraj Sudhakar Pandit, Harshala Raghunath Shukl, Akshaya Anirudh Shende
5	42	Private	Dry	0.029	Subrav Trambak Sonwane, Ashok Trambak Sonwane, Other Right - Satana Dakshin Bhag V.K.Seva Sanstha.
6	43	Private	Dry	0.027	Subrav Trambak Sonwane, Other Right - Satana Dakshin Bhag V.K.Seva Sanstha.
Village: Indiranagar					
7	15	Private	Non Agriculture	0.091	Rajendra Karbhari Bhosale, Yadav Radhu Zade, Prakash Jibhau Deore, Hema Ganesh More, Ganesh Suryakant More, Kiran Keda Kakulate, Sitaram Aananda Thoke, Sanjay Vasant Pathak. Rajiv Vasant Pathak, Pravin Vasant Pathak, Pushpavati

					<p>Vasant Pathak, Hari Garbad Bagul, Damodhar Jibhau Sonwane, Sarala Ramdas Sonwane, Pratik Ramdas Sonwane APK Mother Sarala, Nayim Salim Shaikh, Vasim Salim Shaikh, Sharif Ismail Shaikh, Abdul Rahman Ismail Shaikh, Gulam Sarvar Ismail Shaikh, Dadaji Sukdev Aahire, Babaji Jayram Aahire, Sayid Yakub Bagwan, Maharashtra Goverment, Vishwanath Kashinath Chandratre, Yashwant Jagnnath Ahire, Arjun Jagnnath Ahire, Anil Chagan Bagul, Ravindra Totaram Sonwane, Pushpendra Surendranath Satanawala, Girish Vishnu Bhadane, Vahidali Istak Shaikh, Shahid Kalim Shaikh, Mohamad Shafi Abdul, Indubai Yashwant Sonwane, Pradip Kashinath Badhan, Rajendra Kashinath Badhan, Dilip Kashinath Badhan, Jitendra Hiralal Savkar, Dipak Hiralal Savkar, Tarabai Hiralal Savkar, Supa Bandu Shaikh, Ahamad Bandu Shaikh, Munna Bandu Shaikh, Sharif Bhikan Shaikh, Firoj Bhikan Shaikh, Salman Bhikan Shaikh, Maleka Bhikan Shaikh, Sushilabai Shivaji Borase, Shamrao Abhiman Pawar, Rupali Avinash Thakare, Pratibha Sudhakar Pandit Dinesh Kalu Sonwane, Laxmibai Narsingh Rao Tatiwal, Ashok Shankar Sonwane, Sunil</p>
--	--	--	--	--	---

					<p> Laxman Nikam, Swapnil Yashwant Ahire, Balu Chiman Sonwane, Karbhari Shankar Sonwane, Bebinanda Arjunrao Aahire, Nimbabai Bhr. Namdev, Shubham Nivrutti Jadhav, Roshan Nivrutti Jadhav, APK Aaji Rajubai Tanaji Suryawanshi, Rajendra Kashinath Badhan, Kiran Keda Kakulate, Sanjay Gangadhar Yeola, Bharat Gangadhar Yeola, Vidya Balkrushn Amrutkat, Savita Shashikant Mahajan, Vijaya Rajendra Bramhankar, Shakuntala Gangadhar Yeola, Vijay Karbhari Bhosale, Dhiraj Sadanand Jadhav, Rakesh Sadanand Jadhav, Gulam Imbrahim Shaikh, Afroj Rafik Bagwan, Altaf Yakub Tamboli, Muntaj Husen Pathan, Javed Shaikh Sandu Shaikh, Yashwant Madhukar Bagad, Umesh Dadaji Sonwane, Vijaya Shashikant Shewale, Shital Rajendra Pawar, Sima Jayant Dhumane, Other Right - Hari Om Nagari Sah. Patsanstha, Baglan Nagari Sah. Patsanstha Marya., Vyavasthapkiy Sanchalak Pacchim Maharashtra Vikas Mahamandal Pune, Satana Merchant Co- Op Bank, Deola Sharad Pawar Nagari Patsanstha, State Bank of India Branch Satana, Baglan Nagari Sah. Patsanstha Satana, Bank of Baroda Branch Satana, Iqvitass Small Finance Bank Ltd. </p>
--	--	--	--	--	--

					Branch Malegaon
8	7	Private	Dry	0.018	Bayajabai Pandurang Pakale, Vinayak Pandurang Pakale, Rauf Khalil Mulla, Vilas Krushna Nikam, Digvijay Bhagwant Bhadane, Sangita Bhagwant Bhadane, Shital Punjaram Bhadane, Vinayak Pandurang Pakale, Parasharam Pandurang Pakale, Bebibai Dilip Pagare, Sunil Vijaykumar Chajed, Umesh Dadaji Sonwane, Nashik District Maratha Vidya Prasarak Samaj Nashik Tarfe Chitnis Rajaram Daulat Pa. Other Right - Kalpana Abhiman Bagul, Kishor Murlidhar Deore, Yogesh Murlidhar Deore, Dattatray Ramchandra Kothavade, Vimalbai Magan Shevale, Pantharinath Vaman Yeola, Kamalakar Kantilal Chavhan, Sanjay Kantilal Chavhan, Shripad Kantilal Chavhan
Taluk: Chandawad					
Village: Kheldari					
9	56	Private	Dry	0.09	Pandit Punja Jadhav, Other Right - Kheldari Vi. Ka. Seva So. Ltd.,
10	58/1	Private	Dry	0.201	Atul Prakash Fegade, Anagha Himanshu Patil, Other Right - Shri Ganesh Sahakari Bank Ltd. Nashik Branch Pimpalgaon Baswant,
11	58/2	Private	Dry	0.061	Suresh Aabaji Jadhav, Mangesh Raghunath Darade, Other Right - Kheldari Vi. Ka. Sah. So. Ltd., Pramod Suresh Mahajan, Collection and Sales Officer Sah. Pat. Marya. Ltd, Shri Ganesh Sahakari Bank Ltd. Nashik Branch

					Pimpalgaon Baswant,
12	72	Private	Dry	0.01	Bhaurao Dada Dhomase, Sahebrao Bajirao Dhomase, Suryabhan Bajirao Dhomase, Bhagirathi Bajirao Dhomase, Other Right - APK Sahebraon Alka Manik Jagtap Mathura Bajirao Dhomase APK Sahebrao, Sangita Bajirao Dhomase, Kheldari Vi. Ka. Sah. So. Ltd.,
Total				0.842	

[F. No. NH-12014/79/2020-21-MAH(Z-4)/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.